



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार 19 जुलाई, 2012/28 आषाढ़, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 18 जुलाई, 2012

संख्या : विद्युत.-छ-(5)-61/2010.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक परिषद् है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल डिम्फुक, भोगचा, सुरथंग, तेलिंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश में 33 के0वी0 सिंगल सर्कट टावर लाईन जो 66 के0वी0 डबल सर्कट टावर पर कोठी से गुफा (शिशु) तक रोहतांग टनल की बिजली आपूर्ति हेतु निर्माण की जानी है, के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन

भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, यूनिट नम्बर-2 मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, यूनिट नम्बर-2 मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघों में)
लाहौल-स्पिति	लाहौल	डिम्फुक	139/1	0-5-0
			134/1	0-5-0
			162/1	0-5-0
		किता- 03		0-15-0
		भोगचा	30/1	0-5-0
			30/2	0-5-0
		किता- 02		0-10-0
		सुरथंग	78/1	0-4-2
			किता- 01	0-4-2
		तेलिंग	116/1	0-5-0
			114/1	0-5-0
			124/1	0-5-0
			19/1	0-5-0
			16/1	0-5-0
			9/1	0-5-0
		किता- 06		1-10-0
		कुल किता- 12		कुल रकबा- 2-19-2

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
अति० मुख्य सचिव (विद्युत)।